

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० - 114/13-14

1. परिचयात्मक :-

(क)	अंकेक्षित लेखा का नाम -	पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, अरवल के राजस्व प्राप्ति का अंकेक्षण।
(ख)	अंकेक्षण का लेखावधि -	वर्ष 1997-98 से 2012-13 तक।
(ग)	प्रशासी विभाग का नाम -	गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना।
(घ)	अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम तथा कार्यकाल-	(i) श्री एस० के भारद्वाज-पुलिस उप महानिरीक्षक-01.02.99 से 12.11.99 तक (ii) .. वी० सी० वर्मा -पुलिस उप महानिरीक्षक-12.11.99 से 25.11.2000 (iii) .. एन० सी० ढोढियाल-पुलिस उप महानिरीक्षक-27.11.2000 से 21.12.2003 (iv) .. पियुष ए० बस-पुलिस उप महानिरीक्षक-24.12.03 से 09.12.04 (v) .. सुनील कुमार -पुलिस उप महानिरीक्षक-09.12.04 से 20.12.05 (vi) .. अरविन्द कुमार दास-पुलिस उप महानिरीक्षक-24.12.05 से 30.06.06 (vii) .. उमेश कुमार सिंह-पुलिस उप महानिरीक्षक-30.06.06 से 20.04.07 (viii) .. सुनील कुमार-पुलिस उप महानिरीक्षक-21.04.07 से 23.05.07 (ix) .. प्रविण वशिष्ठ -पुलिस उप महानिरीक्षक-24.05.07 से 19.02.09 (x) .. अनुपमा एस० निलोफर-पुलिस उप महानिरीक्षक-19.02.09 से 19.04.10 (xi) .. जीतेन्द्र कुमार-पुलिस उप महानिरीक्षक-21.04.10 से 12.02.11 (xii) .. उमेश कुमार-पुलिस उप महानिरीक्षक-13.02.11 से 06.08.11

		(xiii) .. मो० नैयर हसनैन-पुलिस उप महानिरीक्षक-06.08.11 से 29.08.13
--	--	---

(ड) अंकेक्षण अवधि के पुलिस अधीक्षक/लेखा प्रभारी का नाम, पदनाम, कार्यकाल सहित

- | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|-------|-----------------------------|
| (i) | श्री संजय आनन्द लाठकर- | पुलिस अधीक्षक | — | 01.02.99 से 13.11.09 तक |
| (ii) | .. सुशील खोपड़े | — | | 13.11.09 से 04.10.2000 तक |
| (iii) | .. नवीन सिंह | — | | 05.10.2000 से 29.11.2000 तक |
| (iv) | .. डा०के०के०सिंह | — | | 02.12.2000 से 18.06.01 तक |
| (v) | .. संजय सिंह | — | | 19.06.2001 से 06.05.03 तक |
| (vi) | .. अभिताभ कुमार दास- | | — | 07.05.03 से 30.09.03 तक |
| (vii) | .. प्रेम प्रकाश पाण्डेय | — | | 01.10.03 से 22.10.04 तक |
| (viii) | .. अरविन्द कुमार | — | | 16.12.04 से 10.05.05 तक |
| (ix) | .. विनोद कुमार | — | | 11.05.05 से 18.12.05 तक |
| (x) | .. एस० आर० नायक | — | | 23.12.05 से 07.02.06 तक |
| (xi) | .. बच्चू सिंह मीणा | — | | 08.02.06 से 17.05.06 तक |
| (xii) | .. गणेश प्रसाद वर्मा | — | | 17.05.06 से 12.04.07 तक |
| (xiii) | .. गोपाल सिंह भदौलिया | — | | 16.04.07 से 29.09.08 तक |
| (xiv) | .. डा० जी०पी० सिन्हा | — | | 29.09.08 से 29.07.09 तक |
| (xv) | .. असगर ईमाम | — | | 30.07.09 से 18.04.10 तक |
| (xvi) | .. विनोद कुमार | — | | 21.04.10 से 14.02.11 तक |
| (xvii) | .. विमल कुमार | — | | 15.02.11 से 30.03.13 तक |
| (xviii) | .. आनन्द कुमार सिंह | — | | 30.03.13 से 31.03.13 तक |

(च) अंकेक्षण अवधि के लेखा पदाधिकारी/उपाधीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं अवधि :-

- (i) श्री विजय कुमार सिंहा-अनु० पुलिस पदाधिकारी (लेखा)-21.12.03 से 07.10.05 तक
- (ii) .. शैफुर रहमान -- " " " -- 14.10.05 से 07.02.09 तक
- (iii) .. एस० एन० वकील अहमद -- " " -- 07.02.09 से 05.09.10 तक

(छ) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम एवं पदनाम :-

- (i) श्री चूमन थापा -- पुलिस अवर निरीक्षक (सामान्य शाखा)
- (ii) .. लक्ष्मी नारायण -- साक्षर -- सिपाही -- 326 (लेखा शाखा)
- (iii) .. पंकज कुमार -- साक्षर -- सिपाही -- 466 (लेखा शाखा)

(ज) वरीय अंकेक्षकों के नाम :-

- (i) श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, वरीय अंकेक्षक वर्ग -2
- (ii) .. उदय कुमार, वरीय अंकेक्षक, वर्ग - 2
- (झ) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि :- 05.02.14 (पूर्व में) एवं 15.07.14 (पुनः)
- (ञ) अंकेक्षण समापन तिथि :- 08.08.14
- (ट) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस :- 18 दिन।
- (ठ) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

(A) प्रस्तुत अभिलेख -

- (i) रोकड़ पंजी (वर्ष 04-05 से 12-13)
- (ii) रेमीटान्स पंजी (वर्ष 04-05 से 12-13)
- (iii) कोषागार चालान की प्रति (वर्ष -04-05 से 12-13)
- (iv) R.D (Receipt Book) (वर्ष 04-05 से 12-13)
- (v) निलामी सम्बन्धि संचिका (वर्ष 04-05 से 12-13)
- (vi) बल प्रतिनियुक्ति संबंधी संचिका (वर्ष 04-05 से 12-13)
- (vii) कमान पंजी - (वर्ष 04-05 से 12-13)

(viii) जिला सुरक्षा समिति की कार्यवाही संबन्धित संचिका

(B) अप्रस्तुत अभिलेख :-

(1) डिमान्ड वैलेस क्लेक्सन से सम्बन्धित पंजी (डी0 वी0 सी0)

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :-

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक-15.9.1960 एवं सं0 10/वि0 अ0 पटना दिनांक 21.01.14 विभागीय पत्रांक 61 दिनांक-01.07.14 एवं पत्रांक 66 दिनांक 08.07.14 के आलोक में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के केवल राजस्व प्राप्तियों, कोषागार में जमा राशियों एवं बकाया राशियों का अंकेक्षण उपलब्ध अभिलेखों के आलोक में सामान्य रूप से किया गया। राजस्व प्राप्तियों, कोषागार में जमा राशियों एवं बकाया राशियों के अलावा अन्य प्राप्तियों, व्यय राशियों एवं कोषागार में जमा राशियों से सम्बन्धित कार्य नहीं किया गया।

अंकेक्षित कार्यालय का कार्य क्षेत्र जिला अरवल अन्तर्गत विधि व्यवस्था बनाये रखने के अलावा जनता के जानमाल की सुरक्षा करना भी है।

(3) वित्तीय परिशंसा :-

चूँकि अरवल को 01.02.99 से नक्सन प्रभावित जिला के रूप में स्थापित किया गया और पूर्व राजस्व जिला के रूप में 2001 से मान्यता प्रदान की गई। परन्तु जिला पुलिस अधीक्षक को निकासी एवं व्ययन सम्बन्धित प्राप्त नहीं रहने के कारण सभी वित्तीय कार्यकलाप जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय जहानाबाद द्वारा ही वर्ष 03-04 तक निष्पादित किये जाते रहे थे। अतः स्वतंत्र रूप से वित्तीय वर्ष 04-05 से वित्तीय कार्यकलाप जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय अरवल द्वारा निष्पादित किये जाने लगे।

अतः राजस्व प्राप्ति, कोषागार में जमा एवं बकाया राजस्व की राशि की जाँच वित्तीय वर्ष 04-05 से 12-13 तक सम्पन्न किया गया।

राजस्व प्राप्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि जिला पुलिस कार्यालय अरवल में मुख्यतः पाँच स्रोतों से राजस्व की प्राप्ति हुई थी, जो निम्न है :- (i) दखलदहानी हेतु बल की प्रतिनियुक्ति से (ii) बैंक कार्यालय के चेस्ट की सुरक्षा हेतु बल की प्रतिनियुक्ति से (iii) एक बैंक से दूसरे बैंक राशि स्थानान्तरण के समय बैंक स्काट हेतु बल की प्रतिनियुक्ति से (iv) अंगरक्षक के रूप में बल की प्रतिनियुक्ति से (v) पुरानी गाड़ियों एवं रद्द कल पुर्जे की निलामी से

उपरोक्त स्रोतों से वर्ष 04-05 से 12-13 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली कुल अनुमान्य राशि, प्राप्त राशि, कोषागार में जमा राशि निम्नवत थी।

क्र०	मद	अनुमान्य राशि	प्राप्त राशि	कोषागार में जमा राशि	बकाया राशि
1	दखलदहानी हेतु वल की प्रतिनियुक्ति से	30264	30264	30264	शून्य
2	बैंक कार्यालय के चेस्ट की सुरक्षा हेतु वल की प्रतिनियुक्ति से	98,47,268	28,44,616	28,44,616	70,02,652
3	एक बैंक से दूसरे बैंक राशि स्थानान्तरण के समय बैंक स्काट हेतु वल की प्रतिनियुक्ति से	534954	142394	142394	392560
4	अंगरक्षक के रूप में वल की प्रतिनियुक्ति से	3,21,419	शून्य	शून्य	3,21,419
5	पुरानी गाड़ियों एवं रद्दी कल पूर्जे की निलामी से	43800	43800	43800	शून्य
	कुल योग :-	1,07,75,445	30,61,074	30,61,074	77,16,631

(सतहत्तर लाख सोलह हजार छःसौ एकतीस मात्र)

राजस्व के रूप में प्राप्त राशियों को R.C से प्राप्त किया गया तथा उसे कोषागार में जमा किया गया था, एवं इसकी प्रविष्टि रोकड़ पुस्त में दर्ज की गई थी।

कोषागार अरवल में जमा राशियों का सत्यापन कोषागार अभिलेखों से किया गया और सही पाया गया।

2. अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि को रोकड़ के संवरण शेष की स्थिति :-

अंकेक्षण दिनांक-05.02.14 को प्रारम्भ किया गया। उस तिथि को रोकड़ की स्थिति निम्नवत् पाई गई।

एम० एम० भी० 18 (01) 14 डी०टी०ओ०

(i) (MM.V 18 (01)14) -- 32610 (D.T.O को भेजने हेतु राशि)

(ii) (Contingent) -- 705 (पूर्व से चली आ रही राशि)

आकस्मिकता

(iii) Pay Bill -- 35121

वेतन विपत्र

कुल -- 68436.00 (रु० अडसठ हजार चार सौ छत्तीस मात्र)

अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि के संवरण शेष की कुल राशि रु0 68,436.00 बैंक ऑफ इन्डिया अरवल शाखा के खाता सं0 585 में पाई गई। उपरोक्त बैंक में रखी राशियों के विवरण से स्पष्ट है कि इस कार्यालय में राजस्व के रूप में प्राप्त को राशि बैंक में जमा हेतु लम्बित नहीं थी।

(4) अरवल जिला अन्तर्गत कुल स्वीकृत उपलब्ध एवं रिक्त पद की विवरणी।

क्र0	पदनाम	स्वीकृत वल	उपलब्ध वल	रिक्त
1	2	3	4	5
1	पुलिस अधीक्षक	01	01	00
2	अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान)	01	00	01
3.	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	01	01	00
4.	पुलिस उपाधीक्षक	01	00	01
5.	परिचारी प्रवर	01	00	01
6.	पुलिस निरीक्षक	05	03	02
7.	सुवेदार	01	00	01
8.	परिचारी	03	00	03
9.	पुलिस अवर निरीक्षक	95	54	41
10.	आशु अवर निरीक्षक	01	00	01
11.	सिविल जमादार	06	06	00
12.	आर्मोरर जमादार	01	01	00
13.	सहायक अवर निरीक्षक	74	49	25
14.	आशु सहायक, अवर निरीक्षक	02	00	02
15.	हवलदार	121	48	73
16.	चालक हवलदार	06	02	04
17.	आर्मोरर हवलदार	02	01	01
18.	सिपाही	571	438	133
19.	चालक सिपाही	30	00	30
20.	आर्मोरर सिपाही	02	00	02

भाग - 2

(5) अंगरक्षक के प्रतिनियुक्ति के विरुद्ध राजस्व के रूप में वकाया राशि रु0 3,21,419.00 वसूली योग्य :-

शीर्ष 0055 पुलिस राजस्व की संचिका की जाँच में पाया गया कि श्री राजीव कुमार तंरग, प्रेस रोड शिवपुरी, पटना की सुरक्षा में जिला वल के आरक्षी संख्या-6 श्री पिन्दु राय के अंगरक्षक के रूप में दिनांक-08.08.05 से दिनांक-31.03.08 तक प्रतिनियुक्ति किया गया था। उस प्रतिनियुक्ति के विरुद्ध श्री राजीव की देनदारी रु0 3,21,419 पायी गयी। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अरवल द्वारा

अपने पत्रांक 37/सा0 शा0 दिनांक-08.03.08 से उक्त राशि को जमा करने हेतु पत्र निर्गत किया गया था।

उपरोक्त के संबंध में आपत्ति निर्गत की गई थी अनुपालन में बताया कि राशि वसूली हेतु कारवाई की जायेगी, परन्तु कोई कारवाई नहीं की गई थी इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक से वार्ता की गई। फलस्वरूप उनके द्वारा श्री राजीव कुमार तरंग प्रेस रोड शिवपुरी पटना को बकाया राशि शीघ्र जमा करने हेतु पत्र (संख्या 216/ले0शा0/दिनांक-28.7.14) निर्गत किया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति की तिथि तक राशि जमा नहीं की गई थी।

अतः अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति के विरुद्ध राजस्व के रूप में रु0 3,21,419 क्षति की वसूली दोषी व्यक्ति से की जाय तथा उसे कोषागार में जमा करते हुए सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय। (गणना तालिका परिशिष्ट "क" संलग्न)।

- (6) बैंक स्काट के रूप में पंजाब नेशनल बैंक में वल प्रतिनियुक्ति के विरुद्ध रु0 2260.00 वसूली योग्य :-

शीर्ष 0055-पुलिस राजस्व एवं प्राप्तियों की संचिका की जाँच में पाया गया कि शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक अरवल शाखा के अभियाचना संख्या एस0 ई0 जी0/आर0 ई0 एम-3 दि0-02.08.05 के आलोक में दिनांक-03.08.2005 को बैंक स्काट हेतु सशस्त्र वल (1-सुवेदार-6 सिपाही) उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराये गये वल के विरुद्ध बैंक को रु0 2260.00 राजस्व के रूप में जमा करना था। राशि जमा करने हेतु तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्र सं0 164/ले0शा0 दिनांक-20.09.08 निर्गत भी किया गया था। उक्त राशि को जमा कराने हेतु आपत्ति निर्गत की गई थी जिसके अनुपालन में बताया गया कि वसूली हेतु कारवाई की जायेगी। परन्तु कोई कारवाई नहीं की गई थी। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक अरवल से वार्ता की गई। फलस्वरूप उनके द्वारा बकाया राशि जमा करने हेतु पंजाब नेशनल बैंक, शाखा अरवल को पत्र (217/ले0शा0/दिनांक-28.07.14) निर्गत किया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति की तिथि तक बैंक द्वारा राशि जमा नहीं किया गया था।

अतः बैंक स्काट के रूप में रु0 2260.00 की वसूली सम्बन्धित बैंक से कराकर एवं उसे कोषागार में जमा करते हुए वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

(गणना तालिका परिशिष्ट 'ख' संलग्न)

- (7) बैंक स्काट के रूप में भारतीय स्टेट बैंक शाखा अरवल अन्तर्गत वल की प्रतिनियुक्ति के विरुद्ध राजस्व की राशि रु0 390300/- वसूली योग्य :-

स्टेट बैंक ट्रेजर गार्ड प्रतिनियुक्ति से सम्बन्धित कमान पंजी की जाँच में पाया गया कि जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय अरवल द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों को बैंक स्काट हेतु सुरक्षा वल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। परन्तु राजस्व की राशि दिनांक-20.06.04 की तिथि तक का ही बैंक द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय अरवल में जमा कराया गया था। जिसे कोषागार में भी जमा कर दिया गया था। दिनांक-21.06.04 के पश्चात् बैंक स्काट हेतु सुरक्षा वल प्रतिनियुक्ति के विरुद्ध बैंक द्वारा किसी तरह की राजस्व की राशि जमा नहीं कराई गई थी।

इस सम्बन्ध में राशि की गणना कराते हुये वसूली हेतु आपत्ति निर्गत की गई थी। परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। दिनांक-21.06.04 से 12-13 तक बकाये राजस्व की गणना की गई एवं पुलिस अधीक्षक अरवल से वार्ता की गई। फलस्वरूप उनके द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा अरवल को बकाया राशि अविलम्ब जमा करने हेतु पत्र (संख्या 218/ले0 शा0 दिनांक-28.07.14) निर्गत किया गया। परन्तु अंकेक्षण समाप्ति की तिथि तक राशि जमा नहीं की गई थी।

अतः बैंक स्कॉट के रूप में ₹0 3,90,300/- की वसूली सम्बन्धित बैंक से की जाय और उसे कोषागार में जमा कराते हुये, सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय। (गणना तालिका प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ग' संलग्न)

- (8) बैंक ऑफ इंडिया अरवल कार्यालय के ट्रेजर सुरक्षा गार्ड के रूप में प्रतिनियुक्त एक हवलदार तथा चार सिपाही से सम्बन्धित बकाया राजस्व की राशि ₹0 70,02,652.00 वसूली योग्य :-

शीर्ष 0055 पुलिस राजस्व एवं प्राप्तियों की संचिका के जॉच क्रम में पाया गया कि बैंक ऑफ इंडिया अरवल में स्थाई ट्रेजर गार्ड के रूप में एक हवलदार तथा चार सिपाही की प्रतिनियुक्ति दिनांक-31.05.03 से की गई थी, इनकी प्रतिनियुक्ति के विरुद्ध दिनांक-31.03.08 तक ही राजस्व को बैंक द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय अरवल में जमा कराया गया था। 1.4.08 से आपत्ति निर्गत की तिथि तक बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्थाई ट्रेजर सुरक्षा गार्ड की प्रतिनियुक्ति के विरुद्ध राजस्व के रूप में राशि जमा नहीं कराई गई थी। बकाया राजस्व की गणना कराते हुये वसूली हेतु आपत्ति निर्गत की गई थी परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। दिनांक-01.04.08 से 12-13 तक बकाया राजस्व की गणना की गई एवं जिला पुलिस अधीक्षक अरवल से वार्ता की गई। फलस्वरूप उनके द्वारा बैंक ऑफ इंडिया अरवल शाखा को राजस्व के रूप में बकाया राशि को जमा करने हेतु पत्र (संख्या 219/ले0शा0 दिनांक-28.07.14) निर्गत किया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति की तिथि तक बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बकाया राशि को जमा नहीं कराया गया था।

अतः बैंक ऑफ इंडिया अरवल कार्यालय के ट्रेजर गार्ड के रूप में प्रतिनियुक्त एक हवलदार तथा चार सिपाही से सम्बन्धित बकाया राजस्व ₹0 70,02,652.00 की वसूली की जाय तथा उसे कोषागार में जमा करते हुये वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

(गणना तालिका प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'घ' संलग्न)


उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का नाम एवं पदनाम

1. मो0 ओबैदुल्लाह जावेद, व0अं0-2

परिशिष्ट-‘क’ (कड़िका 5 से सम्बन्धित)

दि०-8.8.05 से मार्च 2008 तक प्रतिनियुक्त किये गये अंगरक्षक के बदले शीर्ष 0055 पुलिस राजस्व एवं प्राप्तियों के अन्तर्गत राजस्व की वसुली का दावा की विवरणी :-

दिनांक-8.8.05 से दिनांक-7.8.2006 तक

1. (एक) आरक्षी का औसत वेतन $3974=00 \times 12$ — 47688.00

मँहगाई वेतन

- 1 (एक) आरक्षी का औसत म० वेतन 1987×12 — 23844.00

मँहगाई भत्ता

बेतन + म० बेतन — 8.8.05 से 31.12.05 तक 28458 का 21%	5976.00
“ “ — 1.1.06 से 30.6.06 तक 35766 का 24%	8584.00
“ “ — 1.7.06 से 7.8.06 तक 7307 का 29%	2119.00

चिकित्सा भत्ता

100 रुपये प्रतिमाह $\times 12$ —	1200.00
----------------------------------	---------

शस्त्र भत्ता

10 रुपये प्रतिमाह $\times 12$ —	120.00
---------------------------------	--------

विशेष कर्तव्य भत्ता

65 रुपये प्रतिमाह $\times 12$ —	780.00
---------------------------------	--------

आवास भत्ता

बेतन + म० बेतन का 5% —	3577.00
------------------------	---------

पौष्टिक अहार भत्ता

612 रुपये प्रतिमाह $\times 12$ —	7344.00
----------------------------------	---------

सवारी भत्ता

30 रुपये प्रतिमाह $\times 12$ —	360.00
---------------------------------	--------

वार्षिक वर्दी उपबंध —2650 प्रति वर्ष —	2650.00
--	---------

यात्रा व्यय बेतन + म० बेतन का 10% —	7153.00
-------------------------------------	---------

कार्यालय व्यय - का 8% - 5723.00

धुलाई भत्ता

20 रुपये प्रतिमाह x12 - 240.00

117598.00

दिनांक 8.8.2006 से दिनांक-7.8.2007

1 (एक) आरक्षी का औसत बेतन 3974 x12 - 47688.00

मेंहगाई बेतन

1 (एक) आरक्षी का औसत म0 बेतन 1987 x12 - 23844.00

मेंहगाई भत्ता

बेतन + म0 वेतन दिनांक- 8.8.06 से 31.12.06- 28458 का 29% - 8253.00

.. .. दिनांक- 1.1.07 से 30.6.07 - 35766 का 35% - 12518.00

.. .. दिनांक-1.7.07 से 31.12.07 - 7307 का 41% - 2996.00

चिकित्सा भत्ता

100 रुपये प्रतिमाह x12 - 1200.00

शस्त्र भत्ता

10 रुपये प्रतिमाह x12 - 120.00

विशेष कर्तव्य भत्ता

65 रुपये प्रतिमाह x12 - 780.00

पौष्टिक अहार भत्ता

612 रुपये प्रतिमाह x12 - 7344.00

आवास भत्ता

बेतन + म0 वेतन का 5% - 3577.00

सवारी भत्ता

30 रुपये प्रतिमाह x12 - 360.00

धुलाई भत्ता

20 रूपयें प्रतिमाह x12	—	240.00
वार्षिक बंदी उपबंध —2650 वार्षिक	—	2650.00
यात्रा व्यय वेतन + म0 वेतन का 10%	—	7153.00
कार्यालय व्यय वेतन + म0 वेतन का 8%	—	5723.00
		124446.00

दिनांक —8.8.2007 से दिनांक—31.3.2008 तक

एक (1) आरक्षी का वेतन 3974x7.24	—	30894.00
एक (1) आरक्षी का महुँगाई वेतन 1987x7.24	—	15447.00

महुँगाई भत्ता

वेतन + महुँगाई वेतन का 41%	—	19000.00
----------------------------	---	----------

चिकित्सा भत्ता

100 रूपयें प्रतिमाह x7.24	—	777.00
---------------------------	---	--------

विशेष कर्तव्य भत्ता

65 रूपयें प्रतिमाह x7.24	—	505.00
--------------------------	---	--------

शस्त्र भत्ता

10 रूपयें प्रतिमाह x7.24	—	78.00
--------------------------	---	-------

आवास भत्ता

बेतन + महुँगाई बेतन का 5%	—	2317.00
---------------------------	---	---------

सवारी भत्ता

30 रूपयें प्रतिमाह x7.24	—	163.00
--------------------------	---	--------

धुलाई भत्ता

20 रूपयें प्रतिमाह x7.24	—	135.00
--------------------------	---	--------

वर्दी उपबंध

2650.00 प्रति वर्ष x7.24	—	1698.00
--------------------------	---	---------

वेतन + महुँगाई वेतन का 10% यात्रा व्यय	—	4634.00
“ “ “ 8% कार्यालय व्यय	—	<u>3707.00</u>
		79375.00

दिनांक—8.8.2005 से दिनांक—7.8.2006 तक — रू0 117598.00

दिनांक—8.8.2006 से दिनांक—7.8.2007 तक — रू0 124446.00

दिनांक— 8.8.2007 से दिनांक—31.3.2008 तक — रू0 79375.00

दावे की कुल राशि — **321419.00**

रुपये तीन लाख एक्कीस हजार चार सौ उन्नीस मात्र ।

परिशिष्ट – 'ख' कंडिका- 6 से सम्बन्धित।

पंजाब नेशनल बैंक अरवल शाखा के बैंक स्कॉट के विरुद्ध वर्ष 04-05 से 12-13 के बकाया राजस्व की समेकित विवरणी।

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	अनुमान्य राशि	पूर्व वित्तीय वर्ष की राशि	कुल राशि	आर०सी० से प्राप्त राशि	कोषागार में जमा राशि	वित्तीय वर्ष के अन्त में कुल बकाया राशि	अभ्युक्ति
1	04-05	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
2	05-06	2260	शून्य	2260	शून्य	शून्य	2260	
3	06-07	शून्य	2260	2260	शून्य	शून्य	2260	
4	07-08	शून्य	2260	2260	शून्य	शून्य	2260	
5	08-09	शून्य	2260	2260	शून्य	शून्य	2260	
6	09-10	शून्य	2260	2260	शून्य	शून्य	2260	
7	10-11	शून्य	2260	2260	शून्य	शून्य	2260	
8	11-12	शून्य	2260	2260	शून्य	शून्य	2260	
9	12-13	शून्य	2260	2260	शून्य	शून्य	2260	
कुल -		2260	—	—	शून्य	शून्य	2260	

बैंक स्कॉट से संबंधित विवरणी (पंजाब नेशनल बैंक अरवल से सम्बन्धित)

अनुमान्य राशि								प्राप्त राशि		कोषागार में जमा राशि				
क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	प्रतिनियुक्ति की अवधि	कार्यालय आदेश अभियाचन सं०	बल का प्रकार एवं सं०	राशि	पूर्व वित्तीय वर्ष की राशि	कुल राशि	आर०बी० / आर०सी० की सं० / तिथि	आर०सी० की राशि	चालान सं०	कोषागार चालान सं०	तिथि	राशि	वित्तीय वर्ष की शेष राशि
		03.08.05	एस०इ०जी / आर०इ०एम०-3 दिनांक	1-सुवेदार 6-सिपाही	2260	शून्य	2260	—	—	—	—	—	—	2260
			02.08.05											
		06-07 से 12-13	—	—	शून्य	2260	2260	—	—	—	—	—	—	2260

परिशिष्ट-ग' से सम्बन्धित।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के बैंक स्कॉट के विरुद्ध वर्ष 02-03 से 12-13 के वकाया राजस्व की समेकित विवरणी।

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	अनुमान्य राशि	पूर्व वित्तीय वर्ष की राशि	कुल राशि	आर०सी० से प्राप्त राशि	कोषागार में जमा राशि	वित्तीय वर्ष के अन्त में कुल बकाया राशि	अभ्युक्ति
1	02-03 से 04-05 (20.07.04 तक)	43004	शून्य	43004	43004	43004	शून्य	
2	04-05	6834	शून्य	6884	शून्य	शून्य	6834	
3	05-06	शून्य	6834	6834	शून्य	शून्य	6834	
4	06-07	40502	6834	47336	शून्य	शून्य	47336	
5	07-08	15098	47336	62434	शून्य	शून्य	62434	
6	08-09	68170	62434	130604	शून्य	शून्य	1,30,604	

[illegible]

बैंक स्काॅट से संबंधित विवरणी।

[illegible]

बैंक स्काॅट से संबंधित विवरणी।[illegible]

दाउद नगर स्टेट बैंक	
भौरंगावा द स्टेट बैंक	
जहाना पाद स्टेट बैंक	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

44	11-12	05.12.11	5768	1-5	1514										
45	11-12	14.12.11	5769	1-6	1764										
46	11-12	22.12.11	9746	1-5	1514										
47	11-12	28.12.11	5770	1-5	1514										
48	11-12	04.01.12	5771	1-5	1514										
	11-12	—	—	—	81436	3,08,864	3,90,300	—	शून्य	—	—	—	शून्य	3,90,300	
1	12-13	08.05.12	165/जी0एस0-08.05.12	2-8	11070	—	—	—							
	12-13	—	—	—	11070	3,90,300	401370	0340832 1(5)12 7.05.12	11070	2012/05/03 348	C/0055 /00274	15.05.12	11070	3,90,300	

परिशिष्ट - "घ" कंडिका -8 से सम्बन्धित।

बैंक ऑफ इंडिया अरवल के कार्यालय ट्रेजर चेस्ट की सुरक्षा हेतु दिनांक-31.05.03 से दिनांक-31.03.13 तक प्रतिनियुक्त एक हवलदार एवं चार सिपाही के विरुद्ध बकाया राजस्व की समेकित विवरणी।

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	अनुमान्य राशि	पूर्व वित्तीय वर्ष की राशि	कुल राशि	आर०सी० से प्राप्त राशि	कोषागार में जमा राशि	वित्तीय वर्ष के अन्त में कुल बकाया राशि	अभ्युक्ति
1	03-04	500632	शून्य	500632	शून्य	शून्य	500632	
2	04-05	525163	500632	1025795	453636	453636	572159	
3	05-06	609607	572159	1181766	417193	417193	764573	
4	06-07	642840	764573	1407413	शून्य	शून्य	1407413	
5	07-08	566374	1407413	1973787	1973787	1973787	शून्य	

6	08-09	1094327	शून्य	1094327	शून्य	शून्य	1094327	वर्षवार विवरणी संलग्न।
7	09-10	1217830	1094327	2312157	शून्य	शून्य	2312157	तदैव
8	10-11	1409361	2312157	3721518	शून्य	शून्य	3721518	तदैव
9	11-12	1560097	3721518	5281615	शून्य	शून्य	5281615	तदैव
10	12-13	1721037	5281615	7002652	शून्य	शून्य	7002652	तदैव
कुल योग -		98,47,268	-	-	28,44,616	28,44,616	7002652	तदैव

बैंक ऑफ इंडिया में प्रतिनियुक्त एक हवलदार एवं चार सिपाही के विरुद्ध प्राप्त राजस्व की गणन तालिका (कार्यालय ट्रेजर चेस्ट की सुरक्षा हेतु)

दिनांक-01.04.2008 से दिनांक-31.03.09 तक

(A) वेतन

1. एक हवलदार का वेतन (मू०वे०+ग्रेड पे०) 1.04.2008 से 30.06.2008 तक=12540X3=37620.00
2. 4 सिपाही का वेतन (मू०वे०+ग्रेड पे०) 1.04.2008 से 30.06.2008 तक=11650X3 X4=139800.00
3. एक हवलदार का वेतन (मू०वे०+ग्रेड पे०) 1.07.2008 से 31.03.09 तक=12920X9 =116280.00
4. चार सिपाही का वेतन (मू०वे०+ग्रेड पे०) 1.07.2008 से 31.03.09 तक=12000X4X9 =4,32,000.00

7,25,700.00

(B) मॅहगाई भत्ता -

1. एक हवलदार - 1.4.08 से 30.06.08 तक - 12% - 4515.00
2. चार सिपाही - 1.4.08 से 30.06.08 तक - 12% - 16776.00

3.	एक हवलदार - 1.7.08 से 31.12.08 तक - 16%	-	12402.00	119979.00
4.	चार सिपाही - 1.7.08 से 31.12.08 तक - 16%	-	46080.00	
5.	एक हवलदार - 1.1.09 से 31.03.09 तक - 22%	-	8526.00	
6.	चार सिपाही - 1.1.09 से 31.03.09 तक - 22%	-	31680.00	

(C) मकान किराया भत्ता - 7.5%

1.	एक हवलदार - 1.4.08 से 30.6.08 तक - 2823.00	54432.00
2.	चार सिपाही - 1.4.08 से 30.06.08 तक - 10488.00	
3.	एक हवलदार - 1.07.08 से 31.03.09 तक - 8721.00	
4.	चार सिपाही - 1.07.08 से 31.03.09 तक - 32400.00	

(D) विशेष कर्तव्य भत्ता

1.	एक हवलदार - $75 \times 12 = 900.00$	4020.00
2.	चार सिपाही - $65 \times 4 \times 12 = 3120.00$	

(E) चिकित्सा भत्ता -

1.	एक हवलदार - $100 \times 12 = 1200.00$	6,000.00
2.	चार सिपाही - $100 \times 4 \times 12 = 4800.00$	

(F) सवारी भत्ता -

1.	एक हवलदार + चार सिपाही = $30 \times 5 \times 12 = 1800.00$	
----	--	--

(G) सवारी भत्ता —

1. एक हवलदार + चार सिपाही = $20 \times 5 \times 12 = 1200.00$

(H) रासन भत्ता —

1. एक हवलदार + चार सिपाही = $612 \times 5 \times 12 = 36720.00$

(I) यात्रा व्यय — वेतन का 10%

1. एक हवलदार + चार सिपाही = 72570.00

(J) कार्यालय व्यय—वेतन का 8%

1. एक हवलदार + चार सिपाही = 58056.00

- (K) वर्दी उपबन्ध (7-4) — $2650 \times 5 = 13250.00$

- (L) शस्त्र भत्ता — $10 \times 5 \times 12 = 600.00$

(एक हवलदार + चार सिपाही)

कुल योग — 1094327.00

दिनांक — 01.04.09 से दिनांक — 31.03.10 तक

(A) वेतन ग्रेड पे सहित —

- | | |
|--|-------------|
| 1. एक हवलदार का वेतन (1.04.2009 से 30.06.2009 तक) = $12920 \times 3 = 38760.00$ | 7,47,510.00 |
| 2. चार सिपाही का वेतन (1.04.2009 से 30.06.2009 तक) = $12000 \times 4 \times 3 = 144000.00$ | |
| 3. एक हवलदार का वेतन (1.07.2009 से 31.03.10 तक) = $1331 \times 9 = 119790.00$ | |

4. चार सिपाही का वेतन 1.07.2000 से 31.03.10 तक) = $12360 \times 4 \times 9 = 444960.00$

(B) मँहगाई भत्ता -

1.	एक हवलदार - (1.4.09 से 30.06.08 तक) - 22%	-	8526	
2.	चार सिपाही - (1.4.09 से 30.06.09 तक) - 22%	-	31680	
3.	एक हवलदार - (1.7.09 से 31.12.09 तक) - 27%	-	21564	2,07,747.00
4.	चार सिपाही - (1.7.09 से 31.12.09 तक) - 27%	-	80088	
5.	एक हवलदार - (1.1.10 से 31.03.10 तक) - 35%	-	13977	
6.	चार सिपाही - (1.1.10 से 31.03.10 तक) - 35%	-	51912	

(C) मकान किराया भत्ता - 7.5%

1.	एक हवलदार - (1.4.09 से 30.06.09 तक)	-	2907	
2.	चार सिपाही - (1.4.09 से 30.06.09 तक)	-	10800	
3.	एक हवलदार - (1.7.09 से 31.03.10 तक)	-	8982	56,061.00
4.	चार सिपाही - (1.7.09 से 31.03.10 तक)	-	33372	

(D) विशेष कर्तव्य भत्ता

1. एक हवलदार - (01.04.09 से 31.03.10 तक) - $75 \times 12 = 9004020.00$
2. चार सिपाही - (01.04.09 से 31.03.10 तक) - $65 \times 4 \times 12 = 3120$

(E) चिकित्सा भत्ता (जनवरी 10 से 200) –

1. एक हवलदार – (01.04.09 से 31.03.10 तक) – 1500	7500.00
2. चार सिपाही – (01.04.09 से 31.03.10 तक) – 6000	

(F) सवारी भत्ता – (सितम्बर तक–30 जनवरी 10 से–60.00)

1. एक हवलदार (01.04.09 से 31.03.10 तक) – 450	2250.00
2. चार सिपाही (01.04.09 से 31.03.10 तक) –1800	

(G) धुलाई भत्ता (दिसम्बर तक–201–जनवरी 10 से–60/–)

1. एक हवलदार (01.04.09 से 31.03.10 तक) – 360	1800.00
2. चार सिपाही (01.04.09 से 31.03.10 तक) – 1440	

(H) रासन भत्ता –(दिसम्बर 09 तक–612/–जनवरी 10 से 1000)

1. एक हवलदार (01.04.09 से 31.03.10 तक) – 8508	42540.00
2. चार सिपाही (01.04.09 से 31.03.10 तक) – 34032	

(I) यात्रा व्यय – वेतन का 10%

1. एक हवलदार +चार सिपाही (1.4.09 से 31.03.10 तक) – 74751	
--	--

(J) कार्यालय व्यय–(वेतन का 8%)

1. एक हवलदार +चार सिपाही (1.4.09 से 31.03.10 तक) – 59801	
--	--

(K) वर्दी उपबन्ध – (एक हवलदार +चार सिपाही) – 2650 X5 =13250.00

(L) शस्त्र भत्ता – (एक हवलदार + चार सिपाही) – $10 \times 5 \times 12 = 600.00$

कुल योग – 1217830.00

बैंक ऑफ इंडिया अरवल में प्रतिनियुक्त एक हवलदार एवं चार सिपाही के विरुद्ध बकाया राजस्व की गणन तालिका

दिनांक – 01.04.10 से दिनांक-31.03.11 तक

(A) वेतन ग्रेड पे सहित –

1. एक हवलदार का वेतन (1.04.2010 से 30.06.2010 तक) = $13310 \times 3 = 39,930.00$
2. चार सिपाही का वेतन (1.04.2010 से 30.06.2010 तक) = $12360 \times 4 \times 3 = 1,48,320.00$
3. एक हवलदार का वेतन (1.07.2010 से 31.03.11 तक) = $13710 \times 9 = 1,23,390.00$
4. चार सिपाही का वेतन (1.07.2010 से 31.03.11 तक) = $12730 \times 4 \times 9 = 4,58,280.00$

(B) मैहगाई भत्ता –

1.	एक हवलदार – (1.4.10 से 30.06.10 तक) – 35%	–	13977	3,39,285.00
2.	चार सिपाही – (1.4.10 से 30.06.10 तक) – 35%	–	51912	
3.	एक हवलदार – (1.7.10 से 31.12.10 तक) – 45%	–	37020	
4.	चार सिपाही – (1.7.10 से 31.12.10 तक) – 45%	–	1,37,496	
5.	एक हवलदार – (1.7.10 से 31.03.11 तक) – 51%	–	20976	
6.	चार सिपाही – (1.1.11 से 31.03.11 तक) – 51%	–	77904	

(C) मकान किराया भत्ता -7.5%

1.	एक हवलदार - (1.4.10 से 30.06.10 तक)	-	2994	
2.	चार सिपाही - (1.4.10 से 30.06.10 तक)	-	11124	
3.	एक हवलदार - (1.7.10 से 31.3.11 तक)	-	9252	57,750.00
4.	चार सिपाही - (1.7.10 से 31.3.11 तक)	-	34380	

(D) विशेष कर्तव्य भत्ता

1. एक हवलदार - (01.04.10 से 31.03.11 तक) - $75 \times 12 = 9004020.00$
2. चार सिपाही - (01.04.10 से 31.03.11 तक) - $65 \times 4 \times 12 = 3120$

(E) चिकित्सा भत्ता (जनवरी 10 से 200) -

1. एक हवलदार - (01.04.10 से 31.03.11 तक) - $200 \times 12 = 2400$ 12,000.00
2. चार सिपाही - (01.04.10 से 31.03.11 तक) - $200 \times 4 \times 12 = 9600$

(F) सवारी भत्ता - (सितम्बर तक-30 जनवरी से-60.00)

1. एक हवलदार (01.04.10 से 31.03.11 तक) - $60 \times 12 = 720$ 3600.00
2. चार सिपाही (01.04.10 से 31.03.11 तक) - $60 \times 4 \times 12 = 2880$

(G) धुलाई भत्ता

1. एक हवलदार (01.04.10 से 31.03.11 तक) - $60 \times 12 = 720$ 3600.00
2. चार सिपाही (01.04.10 से 31.03.11 तक) - $60 \times 4 \times 12 = 2880$

(H) रासन भत्ता -

1. एक हवलदार (01.04.10 से 31.03.11 तक) - $1000 \times 12 = 12000$ 60,000.00
2. चार सिपाही (01.04.10 से 31.03.11 तक) - $1000 \times 4 \times 12 = 48000$

(I) यात्रा व्यय - वेतन का 10%

1. एक हवलदार + चार सिपाही (1.4.10 से 31.03.11 तक) - 76992.00

(J) कार्यालय व्यय - (वेतन का 8%)

1. एक हवलदार + चार सिपाही (1.4.10 से 31.03.11 तक) - 61594.00

(K) वर्दी उपबन्ध (एक हवलदार + चार सिपाही) - 4000×5 - 20,000.00(L) शस्त्र भत्ता - (एक हवलदार + चार सिपाही) - $10 \times 5 \times 12 = 600.00$

कुल योग - 1409361.00

बैंक ऑफ इंडिया अरवल में प्रतिनियुक्त एक हवलदार एवं चार सिपाही के विरुद्ध बकाया राजस्व को गणन तालिका

दिनांक - 01.04.11 से दिनांक - 31.03.12

(A) वेतन ग्रेड पे सहित -

- | | |
|--|-----------|
| 1. एक हवलदार का वेतन (1.04.2011 से 30.06.2011 तक) = $13710 \times 3 = 41130.00$ | 793380.00 |
| 2. चार सिपाही का वेतन (1.04.2011 से 30.06.2011 तक) = $12730 \times 4 \times 3 = 1,52,760.00$ | |
| 3. एक हवलदार का वेतन (1.07.2011 से 31.03.11 तक) = $14130 \times 9 = 1,27,170.00$ | |

4. चार सिपाही का वेतन (1.07.2011 से 31.03.11 तक) = $13120 \times 4 \times 9 = 4,72,320.00$

(B) मॅहगाई भत्ता -

1.	एक हवलदार - (1.4.11 से 30.06.11 तक) - 51%	-	20976	
2.	चार सिपाही - (1.4.11 से 30.06.11 तक) - 51%	-	77904	
3.	एक हवलदार - (1.7.11 से 31.12.11 तक) - 58%	-	49170	460581.00
4.	चार सिपाही - (1.7.11 से 31.12.11 तक) - 58%	-	1,82,640	
5.	एक हवलदार - (1.1.12 से 31.03.12 तक) - 65%	-	27,555	
6.	चार सिपाही - (1.1.12 से 31.03.12 तक) - 65%	-	1,02,336	

(C) मकान किराया भत्ता - 7.5%

1.	एक हवलदार - (1.4.11 से 30.06.11 तक)	-	3084	
2.	चार सिपाही - (1.4.11 से 30.06.11 तक)	-	11460	
3.	एक हवलदार - (1.7.11 से 31.3.12 तक)	-	9540	59508.00
4.	चार सिपाही - (1.7.11 से 31.3.12 तक)	-	35424	

(D) विशेष कर्त्तव्य भत्ता

1.	एक हवलदार - (01.04.11 से 31.03.12 तक)	-	$75 \times 12 = 900$	4020.00
2.	चार सिपाही - (01.04.11 से 31.03.12 तक)	-	$65 \times 4 \times 12 = 3120$	

(E) चिकित्सा भत्ता

1. एक हवलदार – (01.04.11 से 31.03.12 तक) – $200 \times 12 = 2400$ 12,000.00
2. चार सिपाही – (01.04.11 से 31.03.12 तक) – $200 \times 4 \times 12 = 9600$

(F) सवारी भत्ता —

1. एक हवलदार (01.04.11 से 31.03.12 तक) – $60 \times 12 = 720$ 3600.00
2. चार सिपाही (01.04.11 से 31.03.12 तक) – $60 \times 4 \times 12 = 2880$

(G) धुलाई भत्ता

1. एक हवलदार (01.04.11 से 31.03.12 तक) – $60 \times 12 = 720$ 3600.00
2. चार सिपाही (01.04.11 से 31.03.12 तक) – $60 \times 4 \times 12 = 2880$

(H) रासन भत्ता —

1. एक हवलदार (01.04.11 से 31.03.12 तक) – $1000 \times 12 = 12000$ 60,000.00
2. चार सिपाही (01.04.11 से 31.03.12 तक) – $1000 \times 4 \times 12 = 48000$

(I) यात्रा व्यय — वेतन का 10%

1. एक हवलदार (1.4.11 से 31.03.12 तक) – 79,338.00

(J) कार्यालय व्यय—(वेतन का 8%)

1. एक हवलदार + चार सिपाही (1.4.11 से 31.03.12 तक) — 63470.00

(K) वर्दी उपबन्ध (एक हवलदार+चार सिपाही) – 4000×5 — 20,000.00

(L) शस्त्र भत्ता – (एक हवलदार + चार सिपाही) – $10 \times 5 \times 12 = 600.00$

कुल योग – 15,60,097.00

बैंक ऑफ इंडिया अरवल में प्रतिनियुक्त एक हवलदार एवं चार सिपाही के विरुद्ध बकाया राजस्व की गणन तालिका

दिनांक– 01.04.12 से दिनांक–31.03.13 तक

(A) वेतन ग्रेड पे सहित –

1.	एक हवलदार का वेतन (1.04.2012 से 30.06.2012 तक)= $14130 \times 3 = 42390$	
2.	चार सिपाही का वेतन (1.04.2012 से 30.06.2012 तक)= $13120 \times 4 \times 3 = 1,57,440.00$	793380.00
3.	एक हवलदार का वेतन (1.07.2012 से 31.03.13 तक)= $14560 \times 9 = 1,31,040$	
4.	चार सिपाही का वेतन (1.07.2012 से 31.03.13 तक)= $13520 \times 4 \times 9 = 4,86,720.00$	

(B) मेंहगाई भत्ता –

1.	एक हवलदार – (1.4.12 से 30.06.12 तक) – 65%	–	27,555	
2.	चार सिपाही – (1.4.12 से 30.06.12 तक) – 65%	–	1,02,336	
3.	एक हवलदार – (1.7.12 से 31.12.12 तक) – 72%	–	62,898	460581.00
4.	चार सिपाही – (1.7.12 से 31.12.12 तक) – 72%	–	2,33,616	
5.	एक हवलदार – (1.1.13 से 31.03.13 तक) – 80%	–	34,944	
6.	चार सिपाही – (1.1.13 से 31.03.13 तक) – 80%	–	1,29,792	

(C) मकान किराया भत्ता -7.5%

1.	एक हवलदार - (1.4.12 से 30.06.12 तक)	-	3180	61320.00
2.	चार सिपाही - (1.4.12 से 30.06.12 तक)	-	11808	
3.	एक हवलदार - (1.7.12 से 31.3.13 तक)	-	9828	
4.	चार सिपाही - (1.7.12 से 31.3.13 तक)	-	36504	

(D) विशेष कर्तव्य भत्ता

1. एक हवलदार - (01.04.12 से 31.03.13 तक) - $75 \times 12 = 900$ 4020.00
2. चार सिपाही - (01.04.12 से 31.03.13 तक) - $65 \times 4 \times 12 = 3120$

(E) चिकित्सा भत्ता

1. एक हवलदार - (01.04.12 से 31.03.13 तक) - $200 \times 12 = 2400$ 12,000.00
2. चार सिपाही - (01.04.12 से 31.03.13 तक) - $200 \times 4 \times 12 = 9600$

(F) सवारी भत्ता -

1. एक हवलदार (01.04.12 से 31.03.13 तक) - $60 \times 12 = 720$ 3600.00
2. चार सिपाही (01.04.12 से 31.03.13 तक) - $60 \times 4 \times 12 = 2880$

(G) धुलाई भत्ता

1. एक हवलदार (01.04.12 से 31.03.13 तक) - $60 \times 12 = 720$ 3600.00

2. चार सिपाही (01.04.12 से 31.03.12 तक) – $60 \times 4 \times 12 = 2880$

(H) रासन भत्ता –

1. एक हवलदार (01.04.12 से 31.03.13 तक) – $1000 \times 12 = 12000$ 60,000.00

2. चार सिपाही (01.04.12 से 31.03.13 तक) – $1000 \times 4 \times 12 = 48000$

(I) यात्रा व्यय – वेतन का 10%

1. एक हवलदार + चार सिपाही (1.4.12 से 31.03.13 तक) – 81,759.00

(J) कार्यालय व्यय – (वेतन का 8%)

1. एक हवलदार + चार सिपाही (1.4.12 से 31.03.13 तक) – 65,407.00

(K) वर्दी उपबन्ध (एक हवलदार + चार सिपाही) – 4000×5 – 20,000.00

(L) शस्त्र भत्ता – (एक हवलदार + चार सिपाही) – $10 \times 5 \times 12 =$ 600.00

कुल योग – 1721037.00